

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 506]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2018 — पौष 5, शक 1940

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 24 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक/8367/एफ-11/19/2018/14-2.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, कक्ष क्र. एस 3-24, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड(ड) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“(डड) “संचालक”से अभिप्रेत है संचालक, कृषि विपणन या कोई अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन संचालक, कृषि विपणन की ऐसी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निष्पादन के लिये नियुक्त किया गया हो, जैसा कि विहित किया जाये;”

2. नियम 2 के खण्ड (ण) का लोप किया जाये।

3. नियम 2 के पश्चात्, शब्द “प्रबंध संचालक” जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द “संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये।

4. नियम 85 में, शब्द "राज्य कृषि मण्डी बोर्ड की निधि" के स्थान पर, शब्द "चक्रीय विपणन विकास निधि" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 24th December 2018

NOTIFICATION

No./8367/F-11/19/2018/14-2.-The following draft of amendment in Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti ka Nirvachan) Rules, 1997, which the State Government in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 79 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), proposes to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours in office of the Additional Chief Secretary and Agriculture Production Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Agriculture, Room No. S 3-24, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Atal Nagar, Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 2, after clause (e), the following shall be added, namely :-
"(ee) "Director" means Director of Agricultural Marketing or any other officer, appointed by the State Government to exercise or perform such powers or functions of the Director of Agricultural Marketing under the provisions of this Act or the rules made thereunder, as may be prescribed ;"
2. Clause (o) of rule 2 shall be omitted.
3. After rule 2, for the words "Managing Director", wherever its occurs, the words "Director" shall be substituted.
4. In rule 85, for the words "fund of the State Agriculture Mandi Board", the words "Revolving Marketing Development Fund" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K.C. PAIKARA, Joint Secretary.